


सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-2
संख्या:- 323/XXXIV-2/2017/49/2017
देहरादून: दिनांक: 09 अक्टूबर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-421/XXXVIII/2017-49/2017 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के सम्बन्ध में शासन स्तर पर श्री कवीन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन को नोडल अधिकारी नामित किया गया था, को संशोधित करते हुए इनके स्थान पर श्रीमती ऋचा, अनु सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

2- नोडल अधिकारी, अनु सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन विवरण का निम्नानुसार है-

नामित नोडल अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष सं0/मोबाइल सं0	ई-मेल	वाट्सऐप नं0
श्रीमती ऋचा	अनु सचिव	9927699138	richausecyuk@gov.in	8755505123



(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।



संख्या:- 323 /XXXIV-2/2017/49/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- निजी सचिव, सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- विभागीय अधिकारीगण।
- 4- महानिदेशक/निदेशक, यू-कॉस्ट/यू-सैक/यू-सर्क, उत्तराखण्ड।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार यादव)
अपर सचिव।

